

GOVERNMENT COLLEGE, JATAULI HAILY MANDI, GURUGRAM

Report and pictures of two seminars organized by the Department of Geography





OFFICE OF THE PRINCIPAL GOVT. COLLEGE JATAULI HAILY MANDI GURUGRAM

To

The Director Higher Education
Haryana
Shiksha Sadan, Panchkula

Memo No :- 3422

Dated: 9/2/2019

Subject: Details of National Seminar to be organize on February 16th 2019.

With ref to your letter no 5/2-2018NPE (2) dated 14/08/2018 subject cited above. The details of resource persons as per technical sessions are given below:-

- ❖ 1st Technical Session - Sh. Gaurav Antil, HCS, General Manager Haryana Roadways, Gurugram
- ❖ 2nd Technical Session - Dr. Pankaj Kumar (University of Delhi)
- ❖ 3rd Technical Session - Dr. Ravinder Singh (Retd. Principal)
- ❖ 4th Technical Session - Dr. Shsheel Kumar (Chaudhary Charan Singh University Meerut)

This is for your info please.


Principal
GOVT. COLLEGE, JATAULI
Haily Mandi (Gurugram)

ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर सेमीनार

पटौदी, (पंजाब केसरी): हरियाणा रोडवेज गुरुग्राम के महाप्रबंधक डा. गौरव अंतिल ने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के प्रयोग से ट्रैफिक जाम की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। वे राजकीय महाविद्यालय जाटौली हेलीमंडी के भूगोल विभाग के तत्वावधान में भारत में ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर एक राज्य स्तरीय सेमिनार को संबोधित कर रहे थे।

गुरुग्राम रोडवेज के जीएम डॉ गौरव अंतिल ने कहा कि हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। इससे जाम की समस्या से निपटने में आसानी होगी। दिल्ली विश्वविद्यालय के डा. पंकज ने जाम से बचाव के लिए आधुनिक



ट्रैफिक कंट्रोल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने की सलाह दी। सेवानिवृत्त प्राचार्य डा. रविन्द्र सिंह ने कहा कि लोगों को शेयरिंग ट्रांसपोर्ट का उपयोग करना चाहिए। उच्चतर शिक्षा विभाग पंचकुला के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य विरेंद्र अंतिल ने की। सेमीनार में हरियाणा के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों के लगभग 250 शोधार्थियों, छात्रों व शिक्षाविदों ने भाग लिया। इस अवसर पर मेजबान कॉलेज के प्राचार्य डा. विरेंद्र अंतिल, उपप्राचार्य डा. सतीश यादव, सेमिनार की संयोजक वंदना राय, भूगोल विभाग की विभागाध्यक्षा वंदना राय, अजय कुमार, सुनील कुमार शास्त्री, पूनम कपूर, पूनम शर्मा, राजकुमार सहित अन्य प्राध्यापक गण मौजूद थे।

ट्रैफिक जाम की समस्या पर 16 को नेशनल सेमीनार

राजकीय महाविद्यालय जाटौली हेलीमंडी के द्वारा पहल

- उच्चतर शिक्षा विभाग पंचकुला हरियाणा द्वारा प्रायोजित किया गया
- विभिन्न विश्वविद्यालयों से रिसोर्सर्स परसन्स को बुलाया जायेगा

ट्रैफिक जाम

प्रयुक्ति @ गुरुग्राम



राजकीय महाविद्यालय जाटौली हेलीमंडी के भूगोल विभाग के द्वारा भारत में ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर एक नेशनल सेमिनार का आयोजन 16 फरवरी 2019 को किया जायेगा। प्राचार्य, विरेंद्र अंतिल की अध्यक्षता तथा भूगोल की विभागाध्यक्षा, वंदना राय की देखरेख में हो रहे इस सेमिनार

को उच्चतर शिक्षा विभाग पंचकुला हरियाणा के द्वारा प्रायोजित किया गया है।

प्राचार्य, विरेंद्र अंतिल का कहना कि इस सेमिनार में देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से रिसोर्सर्स परसन्स को बुलाया जायेगा। जिसमें हरियाणा रोडवेज गुरुग्राम के जनरल

मेनेजर गौरव अंतिल (एच.सी.एस.) भी रिसोर्सर्स परसन्स के रूप में उपस्थित होंगे, ताकि इस सेमीनार में भाग लेने वाले शोधार्थियों, विद्यार्थियों तथा शिक्षाविदों को ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके। भूगोल विभाग के द्वारा इस नेशनल सेमिनार के आयोजन के लिये प्राचार्य ने कहा कि यह विभाग के द्वारा एक अच्छी पहल है जो देश की इस तरह की समस्या को देखते हुए उच्चतर शिक्षा विभाग को प्रस्ताव भेजा गया।

गत वर्ष भी भूगोल विभाग के द्वारा भूमिगत जल के गिरते

हुए जल स्तर को लेकर राष्ट्रीय स्तर के सेमीनार का आयोजन किया गया था। भूगोल की विभागाध्यक्षा, वंदना राय ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिये देश की एक गंभीर समस्या को लेकर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार के आयोजन का प्रस्ताव बना लिया गया है, जो जल्दी ही उच्चतर शिक्षा विभाग को स्वीकृति के लिये भेजा जायेगा। जिससे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की समस्या को लेकर विचार साझा करके समस्या का निवारण किया जा सके तथा देश के विकास में सहयोग किया जा सके।



OFFICE OF THE PRINCIPAL GOVT. COLLEGE JATAULI HAILY MANDI GURUGRAM

To

The Director Higher Education
Haryana
Shiksha Sadan, Panchkula

Memo No 2187

Dated: 8/2/18

Subject: Details of National Seminar to be organize on February 10th 2018.

With ref to your letter no 5/7-2017NPE (2) dated 23/08/2017 subject cited above. The details of resource persons as per technical sessions are given below:-

- | | | |
|-------------------------------------|---|--|
| ❖ 1 st Technical Session | - | Dr. Subhan Khan Chief Scintist (Retd.) |
| ❖ 2 nd Technical Session | - | Dr. Ashok Diwakar Vice- Chancellor Starex University |
| ❖ 3 rd Technical Session | - | Sh. Shamsheer Singh Yadav (Retd. Principal) |
| ❖ 4 th Technical Session | - | Dr. Naresh Malik (University of Rajasthan) |


Principal
GOVT. COLLEGE, JATAULI
Haily Mandi (Gurgaon)





आने वाली पीढ़ी के लिए जल संजोना जरूरी

- जाटौली कॉलेज में जल संरक्षण पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन
- सेमिनार में विभिन्न कॉलेजों के लगभग 200 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया

प्रयुक्ति @ गुरुग्राम

राजकीय महाविद्यालय जाटौली हेली मंडी के भूगोल विभाग में प्राचार्य सुरेश कुमार धनेरवाल के नेतृत्व तथा भूगोल विभाग की अध्यक्ष वंदना राय की देखरेख में उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा (पंचकूला) द्वारा प्रायोजित एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। सेमिनार में हरियाणा के राजकीय कॉलेजों के लगभग 200 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। विशेषज्ञ के रूप में डॉ. सुभान खान, शमशेर सिंह यादव, डॉ. नरेश मलिक तथा सुरेंद्र सिंह चौहान (राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर) पहुंचे। उन्होंने सेमिनार के विषय पर



अपने-अपने विचार प्रकट करके बताया कि भविष्य में जल की कमी के कारण क्या-क्या परेशानी उठानी पड़ सकती है और किस तरह से उस परेशानी बचा जा सकता है। कॉलेज के प्राचार्य धनेरवाल ने सेमिनार में आए विशेषज्ञों को स्मृति चिह्न देकर तथा बाहर के कॉलेजों से आए प्रतिभागियों का आभार प्रकट किया। सेमिनार की संयोजक वंदना राय ने धन्यवाद भाषण में कहा कि अगले सत्र में अंतरराष्ट्रीय सेमिनार के आयोजन के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा पंचकूला के पास प्रस्ताव भेजा जाएगा।